



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 667]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, दिसम्बर 9, 2010/अग्रहायण 18, 1932

No. 667]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 9, 2010/AGRAHAYANA 18, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2010

सं. 123/2010-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 962(अ).—अभिहित प्राधिकारी ने, चीन जनवादी गणराज्य, चीनी, ताईपेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और कोरिया जनवादी गणराज्य में मूलतः उद्गमित या वहां से निर्यातित नायलॉन या अन्य पॉलीएमाइड्स के 67 डेसीटैक्स से कम के सिंथेटिक मोनो फिलामेंट सहित सिंथेटिक फिलामेंट यार्न जिसमें नायलॉन के फिशनेट सहित नायलॉन की उच्च अध्यवसाय यार्न के नायलॉन शामिल नहीं हैं जो कि सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम भी कहा गया है) की पहली अनुसूची के अध्याय 54 के अंतर्गत आते हैं, के आयात के मामले में अधिसूचना सं. 15/14/2010-डीजीएडी, तारीख 27 अगस्त, 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में तारीख 27 अगस्त, 2010, के द्वारा प्रकाशित की गई थी के द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 85/2006-सीमा-शुल्क, तारीख 29 अगस्त, 2006, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 512(अ), तारीख 29 अगस्त, 2006 के द्वारा प्रकाशित के तहत अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क के संबंध में, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (5) तथा सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम भी कहा गया है) के नियम 23 के तहत प्रतिपाटन शुल्क जारी रखने के मामले में समीक्षा

आरम्भ की थी और उक्त टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (5) के तहत, अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क समाप्त होने की तारीख को बढ़ाने की सिफारिश की थी;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) उक्त नियमों के नियम 18 तथा 20 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 85/2006-सीमा-शुल्क, तारीख 29 अगस्त, 2006, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 512(अ), तारीख 29 अगस्त, 2006 के द्वारा प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“3. यह अधिसूचना, जब तक कि अधिसूचना को पहले विखंडित न किया जाए, 26 अगस्त, 2011 जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, तक प्रभावी रहेगी” ।

[फा. सं. 354/19/2006-टीआरयू]

प्रशान्त कुमार, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना सं. 85/2006-सीमा-शुल्क, तारीख 29 अगस्त, 2006 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), सा.का.नि. 512(अ), तारीख 29 अगस्त, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 47/2010-सीमा-शुल्क, तारीख 12 अप्रैल, 2010 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), सा.का.नि. 312(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के द्वारा किया गया था ।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2010

## No. 123/2010-Customs

**G.S.R. 962(E).**—Whereas, the designated authority *vide* notification No. 15/14/2010-DGAD, dated the 27th August, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1 dated the 27th August, 2010, had initiated review in terms of sub-section (5) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the said Customs Tariff Act) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of nylon filament yarn of specification synthetic filament yarn including synthetic monofilament of less than 67 decitex, of nylon or other polyamides falling under Chapter 54 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), excluding all high tenacity yarn of nylon including fishnet yarn of nylon, originating in, or exported from, People's Republic of China, Chinese, Taipei, Malaysia, Indonesia, Thailand and People's Republic of Korea, imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 85/2006-Customs, dated the 29th August, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 512(E), dated the 29th August, 2006, and had

recommended for extension of anti-dumping duty, in terms of sub-section (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act and in pursuance of rules 18 and 20 of the said rules, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 85/2006-Customs, dated the 29th August, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 512 (E), dated the 29th August, 2006, namely :—

In the said notification, after paragraph 2, the following shall be added, namely :—

“3. This notification, unless revoked earlier, shall remain in force up to and inclusive of the 26th August, 2011”.

[F. No. 354/19/2006-TRU]]

PRASHANT KUMAR, Under Secy.

**Note :—**The principal notification No. 85/2006-Customs, dated the 29th August, 2006, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 512(E), dated the 29th August, 2006 and last amended by notification No. 47/2010-Customs, dated the 12th April, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 312(E), dated the 12th April, 2010.